



**राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018**  
**Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018**

Website : [www.rssb.rajasthan.gov.in](http://www.rssb.rajasthan.gov.in)

Tel. : 0141-2722520

क्रमांक:- पं. 03(04 A)RSSB/स्टोर/Office Stationery/2025-26/214

जयपुर, दिनांक:- 19/06/2025

**खुली निविदा सूचना (2025-26/05)**

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य स्टेशनरी/कम्प्यूटर स्टेशनरी एवं अन्य कार्यालय उपयोगी सामग्री के क्रय के लिए वार्षिक अनुबंध दर संविदा हेतु अनुमानित लागत राशि रुपये 9.00 लाख की एंजीकृत अनुभवी फर्मों/राजकीय कार्यालयों में सेवा प्रदाता फर्मों से निर्धारित प्रपत्र पर सीलबद्ध निविदाएं (तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं) आमंत्रित की जाती है। इस सामग्री की निविदा डाउनलोड, निविदा खोलने की तिथि, निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की तिथि एवं निविदा की शर्तें इत्यादि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं विभागीय वेबसाइट [www.rssb.rajasthan.gov.in](http://www.rssb.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र वेबसाइट से निर्धारित अवधि में डाउनलोड किये जा सकते हैं।

सचिव

क्रमांक:- पं. 03(04 A)RSSB/स्टोर/Office Stationery/2025-26/215-218 जयपुर, दिनांक:- 19/06/2025  
 प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को निविदा सूचना की दस प्रतियां एवं सी.डी. में सलंगन कर भिजवाई जा रही है इसको नियमानुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति की प्रति के साथ सूचित करावें।
2. प्रभारी अधिकारी आई.टी. को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा प्रपत्र को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. नोडल अधिकारी, बोर्ड SPPP को भेजकर लेख है कि <http://Sppp.raj.nic.in> वेबसाइट पर अपलोड करावें
4. कैशियर/प्राप्ति लिपिक/नोटिस बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।

सचिव

**Signature Not Verified**

Digitally Signed by **Shruti Beniwal**  
 Designation : **Officer On Special**

Address : State Institute of Agriculture Management premises, Durgapura, Jaipur, Rajasthan - 302018.  
 Date : 18-06-2025 04:23:22



# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel. : 0141-2722520

निविदा प्रपत्र नं. : खुली निविदा सूचना (2025-26/65)  
निविदा की अनुमानित राशि : 09 लाख  
निविदा प्रपत्र का मूल्य : 500 /-  
बोली प्रतिभूति राशि : 18,000 /-

बिड प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि : 19/06/2025  
बिड जमा कराने की अंतिम तिथि : 26/06/2025  
अपराह्न : 1.00 बजे तक  
बिड खोलने की तिथि : 26/06/2025  
अपराह्न : 03.00 बजे

## तकनीकी निविदा

**Rate Contract of General Stationery /Computer Stationery and other Office/Examination Use Items के लिये निविदा**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | निविदा सूचना संख्या :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025-26/65                                                                                                     |
| 2. | कार्य का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rate Contract of General Stationery /Computer Stationery and other Office/Examination Use Items के लिये निविदा |
| 3. | 1. फर्म का नाम : .....<br>एवं डाक का पता : .....<br>.....<br>बैंक खाता संख्या : ..... बैंक का नाम : .....<br>शाखा का नाम : ..... IFSC Code : .....<br>2. दूरभाष/मोबाईल नंबर एवं ईमेल : .....<br>3. किसको संबोधित की गई : सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर<br>4. जी एस टी नंबर : .....<br>5. पैन नंबर : .....<br>6. उद्योग आधार क्रमांक/MSME Certificate No. (यदि हो तो) : .....<br>7. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक : ..... |                                                                                                                |
| 4. | निविदा की अनुमानित राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.00 लाख                                                                                                       |
| 5. | शुल्क का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ई-ग्रास चालान नम्बर एवं दिनांक                                                                                 |
|    | निविदा शुल्क राशि रुपये 500 /-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|    | अमानत राशि रुपये 18000 /-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| 6. | टर्न ऑवर (विगत तीन वर्षों में<br>में न्यूनतम राशि रुपये 4.50<br>लाख प्रति वर्ष) ( निविदा शर्तों<br>की शर्त संख्या 10 के अनुसार)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वित्तीय वर्ष 2022-2023 राशि.....<br>वित्तीय वर्ष 2023-2024 राशि.....<br>वित्तीय वर्ष 2024-2025 राशि.....       |
| 7. | पूर्व में कार्य सम्पादन के अनुभव<br>का विवरण ( विगत तीन वर्षों में<br>प्रतिवर्ष न्यूनतम राशि रुपये<br>4.50 लाख प्रति वर्ष) निविदा<br>शर्तों की शर्त संख्या 11 के<br>अनुसार))                                                                                                                                                                                                                                                             | वित्तीय वर्ष 2022-2023 राशि.....<br>वित्तीय वर्ष 2023-2024 राशि.....<br>वित्तीय वर्ष 2024-2025 राशि.....       |

हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना 2025-26/65 दिनांक 19/06/2025 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

## Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) Tel. : 0141-2722520

### खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा शर्तें

**\*\*टिप्पणी :-** निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करना चाहिए। "तकनीकी निविदा" और "वित्तीय निविदा" के अलग – अलग सीलबंद लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखकर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा। तीसरे लिफाफे पर **Rate Contract of General Stationery / Computer Stationary and other Office/Examination Use Items** के लिये निविदा लिखना अनिवार्य होगा। यदि वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग ना रखकर तकनीकी निविदा के लिफाफे में वित्तीय निविदा रखी जाती है तो उसकी निविदा अमान्य कर निरस्त कर दी जावेगी।

1. **"वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदायें"**:-निविदायें Services(सेवाओं) के पंजीकृत अनुभवी फर्मों/राजकीय कार्यालयों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे अंत में उल्लेखित विवरणानुसार एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
2. (क) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।  
(ख) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, तब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
3. **GST (माल एवं सेवा कर) पंजीयन**:-कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये। साथ ही डीलर को पेन नंबर अवश्य देने होंगे।
4. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उस निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
5. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिये। शब्दों व अंकों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में अंकित दरों को प्रस्तावित दर माना जावेगा। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिये।
6. दरें गन्तव्य स्थान तक (एफ.ओ.आर.) उद्धृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी कर प्रभारों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा गाडी भाड़े (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जावेगी।
7. **विधि मान्यता**:-निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

8. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक, रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
9. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा। यदि निविदादाता द्वारा ऐसा किया जाना पाया जाता है तो उस निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
10. फर्म का विगत तीन वर्षों में टर्न ओवर जो कि प्रतिवर्ष 4.50 लाख से कम न हो की छायाप्रति, टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप आयकर रिटर्न की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करे।
11. निविदादाता/फर्म द्वारा विगत तीन वर्षों में केन्द्र अथवा राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संस्थाएं/परियोजनाएं/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इनमें प्रत्येक वर्ष में इस कार्य का 4.50 लाख का अनुभव प्रमाण-पत्र होना चाहिए। (अनुभव प्रमाण अथवा कार्यादेश की स्थिति में कार्य पूर्णता पत्र छायाप्रति संलग्न करें।)
12. निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा संबंधित सभी परिशिष्ट व दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
13. बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार बोर्ड का होगा।
14. बिड शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि का ई-ग्रास कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप आयकर रिटर्न (ITR) की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा संबंधित सभी परिशिष्ट व दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
16. बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार बोर्ड का होगा।

17. विनिर्देश :-

- i. (क) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।
- ii. निविदा में अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलों में, जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हों, वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्या वे सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की हैं, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिये बाध्यकारी होगा।
- iii. **वारंटी/गारंटी खण्ड:-** निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से एक माह की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि एक माह की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाये, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुयें विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाये तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- iv. मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किये गये अनुसार गारंटी दी जायेगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों, यदि कोई हो, को बदलेगा

और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाये, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएँ कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

- v. क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाये, वार्षिक रख रखाव (मेंटीनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिये आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिये भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिये उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

#### 18. निरीक्षण :-

- i. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाये, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।
  - ii. निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशॉप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिये सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नये प्रविष्ट हुये हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
19. नमूने :-वितीय निविदा में अंकित सभी वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के नमूने प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाएँ तो कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिये रसीद दी जायेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिये तथा आर/आर या जी.जार. एक पृथक् रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। सामग्री के नमूने नियमानुसार निर्धारित नोर्स के प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिये।
  20. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जायेंगे।
  21. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जायेगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट, हानि के लिये सरकार/बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जायेगा। सरकार/बोर्ड किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार/बोर्ड द्वारा समपहृत (Forefeit) कर लिया जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिये कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  22. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को इकट्ठा किया जायेगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट या हानि के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिये जायेंगे उन्हें समपहृत किया जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिये किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  23. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा, उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जायेगा तथा जहां पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जायेगा, उन्हें स्वीकार किया जायेगा।
  24. नमूने निकालना :-परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सैटों में नमूने लिये जायेंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जायेगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जायेगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा

दिया जायेगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिये कार्यालय में प्रतिधारित किया जायेगा।

25. **परीक्षण प्रभार :-**परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
26. **रद्द करना :-**
  - i. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुयें अनुमोदित नहीं की जायेंगी उन्हें रद्द किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।
  - ii. तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाये, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दशों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।
27. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 07 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
28. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी, ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी।
29. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक व्यक्तिगत अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
30. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
31. (1) **सुपुर्दगी अवधि :** निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाये, सचिव, बोर्ड द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा:-

| क्र.सं. | मद | मात्रा | सुपुर्दगी अवधि |
|---------|----|--------|----------------|
|---------|----|--------|----------------|

(2) **परिमाण (Quantity) में परिवर्तन का अधिकार :-**

- (1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगी।
- (2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिये पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी :-
  - i. संकर्मों (Works) की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और
  - ii. मूल संविदा के माल (Goods) या सेवाओं (services) के मूल्य का 50 प्रतिशत।
- (3) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का कलेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

**32. बोली प्रतिभूति राशि :**

1. खुली प्रतियोगी बोली, द्वि-प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.5% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, यह बोली के मूल्य का 1.00 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा-विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।
2. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
3. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिये बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।
4. बोली प्रतिभूति ई-ग्रास(egras)के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।
5. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्रारूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिये। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।
6. यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्टि करने के लिये उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।
7. बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिये पात्र नहीं रहा गया है।
8. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।
9. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत (Forfeited) कर दी जायेगी, अर्थात् :
  - i. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है:
  - ii. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है:
  - iii. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है:
  - iv. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है:
  - v. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।
10. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

11. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात्:-
  - a. बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर,
  - b. सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर,
  - c. उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या
  - d. बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय-सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

33. (1) **करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-**

1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा निविदा में अंकित अनुमानित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
  2. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
  3. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये अनुमानित राशि की 1 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समझ लंबित है, के मामले में यह प्रदाय अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत होगी।
  4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:
    - i. "ई-ग्रास(egras)के माध्यम से जमा"
    - ii. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
    - iii. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिये राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
    - iv. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिये नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।
    - v. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।
  5. कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुये बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।
- (3) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :-** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :-
- a. जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
  - b. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
  - c. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

34. (1) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।  
 (2) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिये।  
 (3) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।  
 (4) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

35. बीमा :-

1. सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे-युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
2. यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिये।

36. भुगतान :-

1. दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर किया जायेगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिये गये उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिये जाने पर दिया जायेगा।
2. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित रूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
3. विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर विवाद निपटान अनुसार भुगतान कर दिया जायेगा।
4. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा, जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

37. (1) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(2) **परिसमापित नुकसानी (Liquidated damages):**—परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-

विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये 2½%

एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये 5%

आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिये 7½%

विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये 10%

1. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
2. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
3. यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन

करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

4. यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
38. **वसूलियाँ :** परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
39. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिये।
40. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
41. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
42. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-
  1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
  2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
  3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर।
  4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
43. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिये एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
44. इस कार्य से संबंधित सफल निविदाकार को गोपनीयता बनाये रखनी होगी।
45. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
46. **बिड़ संबंधित किसी भी निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं द्वितीय अपील प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को की जा सकेगी।**
47. निविदा की शर्तों एवं RTTP Act 2012 एवं Rules 2013 में कही विरोधाभास की स्थिति होने पर RTTP Act 2012 एवं Rules 2013 ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।
48. संलग्नक 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' एवं फॉर्मेट बी इस निविदा का भाग होगा। संलग्नक 'बी' के अनुसार निविदादाता द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।
49. मैंने सभी शर्तों को अध्ययन कर लिया है एवं स्वीकार्य है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

**निविदादाता के हस्ताक्षर**  
**मय सील**

### ई-ग्रास द्वारा चालान बनाये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया

1. अमानत राशि निविदा प्रपत्र में सम्बन्धित सुरक्षा सेवा के सामने दर्शायी गयी अनुमानित राशि की 02 प्रतिशत होगी, जो कि वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 के अनुसरण में ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से जमा करायी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL का प्रोसेसिंग शुल्क भी ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से देय होगा। जिसकी ई-भुगतान रसीद/ई-ग्रास चालान से राशि जमा की प्रति ऑनलाईन ई-निविदा भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
  - लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई-निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से ऑनलाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से बिड सिक्योरिटी (अमानत राशि) बजट मद 8443-00-103-00-00 में, बोली दस्तावेज मूल्य (निविदा शुल्क) बजट मद 0075-00-800-(52)-[01] में एवं ई-प्रोसेसिंग शुल्क (RISL) बजट मद 8658-00-102-(16)-[01] के अन्तर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से जमा की जायेगी।
  - बिडर का ई-ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई-ग्रास पोर्टल पर New User Sign Up से लॉगिन फॉर्म भरना है।
  - Login ID Password प्राप्त करने के पश्चात ई-ग्रास पोर्टल पर Sign In करें।
  - चालान जमा करवाने हेतु Service Challan का ऑप्शन चयन करें।
  - Department (Rajasthan Sub-ordinate & Ministerial Service Selector Board हेतु विभागीय कोड 223 एवं ऑफिस Rajasthan Staff Selection Board आई.डी.-32297) का चयन करें।
  - चालान फॉर्म में Period के Option में onetime option का चयन करें।
  - Payment Mode में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑनलाईन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जायेगा। ऑफलाईन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है, उसकी संबंधित बैंक में चालान/कैश जमा कराना होगा। विस्तृत प्रक्रिया ई-ग्रास पोर्टल (egras.rajasthan.gov.in) पर User Manual में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई-ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141-2744294 पर सम्पर्क किया जा सकता है। वर्तमान में चालान द्वारा ही भुगतान किया जाना है।
2. निविदा शुल्क/अमानत राशि/तैर प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन अपलोड किये जाने के पश्चात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में भूतक ब्यचल जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑनलाईन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज ही मान्य होंगे। ऑनलाईन टेण्डरिंग से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ई-प्रोक्योरमेंट हेल्प डेस्क 0141-4022688, 0120-4711-508, 0120-4001-002 पर सम्पर्क करें।

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निविदा प्रपत्र शुल्क - 0075-00-800-(52)-[01]</li> <li>2. अमानत राशि/प्रतिभूति जमा - 8443-00-103-00-00</li> <li>3. प्रोसेसिंग शुल्क - 8658-00-102-(16)-[01] (सिविल विभाग)</li> </ol> <p>विभागीय कोड - 223<br/>ऑफिस आई.डी. - 32297<br/>कार्यालय - राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर<br/>लोकेशन - जयपुर</p> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**हस्ताक्षर निविदादाता**  
**मय सील**

## **Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion , Bid rigging or anti-
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

### **Conflict of Interest**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

## **Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

### **Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to .....for procurement of.....

In response to their Notice Inviting Bids No.....Dated.....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012 that;

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

## **Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is The Chairman RSSB, Jaipur  
The designation and address of the Second Appellate Authority is The Principal Secretary/Secretary to Govt. DOP, Jaipur.

### **(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or Prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

### **(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

### **(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

- (c) Every may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.
- (6) Fee for filing appeal
  - (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
  - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal
  - (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
  - (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
    - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
    - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter
  - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
  - (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement  
Act, 2012**

Appeal No. ....of.....

Before the.....(First/Second Appellate Authority)

**1. Particulars of appellant:**

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

**2. Name and address of the respondent (s):**

(i)

(ii)

(iii)

**3. Number and date of the order appealed against**

And name and designation of the officer/authority

Statement of a decision, action or omission of

The procuring Entity in contravention to the provisions

Of the Act by which the appellant is aggrieved:

**4. If the Appellant Proposes to be representative:**

**5. Number of affidavits and documents enclosed with appeal:**

**6. Ground of appeal:**

.....

.....

.....(Supported by an affidavit)

**7.**

Prayer:

.....

.....

.....

Place.....

Date.....

Appellant's Signature

## **Annexure D : Additional Conditions of Contract**

### **1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

### **2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(ii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the

Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

**3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

**निविदादाताओं द्वारा घोषणा**

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरण के लिए निविदा दी है, उनका/मैं/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/सोल विवरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेंट हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेर/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्त कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

**निविदादाता के हस्ताक्षर मय  
सील**

निविदादाता का नाम :-

पूर्ण पता :-

टेलिफोन नः

50 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सम्पादित किया जायेशपथ/घोषणा-पत्र

मैं/हम ..... पुत्र श्री ..... निवासी

..... जो कि मैसर्स ..... फर्म का  
पता ..... की ओर से शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ/करते है कि

1. यह कि उक्त फर्म/कम्पनी जिसका PAN NO..... GST NO..... है।
2. यह कि मैं इस फर्म/कम्पनी का मालिक/स्वामी/साझेदार/पद ..... पर यह शपथपत्र प्रस्तुत करने को अधिकृत व्यक्ति हूँ।
3. यह है कि मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है, हमने जहां कही भी General /Computer Stationary आपूर्ति/नियोजित किये है, उस आपूर्ति/नियोजित में विगत 3 वर्षों में संतोषप्रद कार्य नहीं होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा डिबार/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।
4. यह कि मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि हमारा किसी भी न्यायालय में General Stationary /Computer Stationary आपूर्ति में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं हैं तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।
5. यह है कि मेरा कोई भी परिजन इस निविदा के निर्णय से संबंधित किसी भी पद अधिकारी/कार्मिक तथा कार्यादेश देने वाले अधिकारी/कार्मिक/लोकसेवक पद पर कार्यरत नहीं है।
6. यह है कि उक्त तथ्यों कि सत्यता के लिये यह शपथपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ/करते है कि उक्त अनुच्छेद सं. 1 से 6 तक में की गई घोषणा मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही है तथा इसमें कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। ईश्वर मेरी/हमारी मदद करें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

50 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सम्पादित किया जाये

**Declaration by the Bidder**

I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation:

Address :

फर्म का नाम :

(कंपनी के लैटर हैड पर प्रस्तुत किया जावे)

सचिव,

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,

दुर्गापुरा, जयपुर

### वित्तीय निविदा प्रपत्र

Rate Contract of General Stationery /Computer Stationary and other  
Office/Examination Use Items के लिये निविदा

निविदा सूचना संख्या ..... के क्रम में हमारी दरें निम्नानुसार हैं:-

| क्र.स                    | सामग्री का नाम                                                            | दरें (Inclusive of All taxes & GST) (राशि रु. में) |           | विशेष विवरण (ब्राण्ड)/मॉडल का नाम  | आपूर्ति किये जाने वाले ब्रांड/मॉडल का नाम अंकित करें। |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                          |                                                                           | अंकों में                                          | शब्दोंमें |                                    |                                                       |
| General Stationery Items |                                                                           |                                                    |           |                                    |                                                       |
| 1.                       | Photo Copy Paper (A4), 75 GSM (500 sheets)                                |                                                    |           | Jk, Century, Satia                 |                                                       |
| 2.                       | Photo Copy Paper Colour (A4), 75 GSM (500 sheets)                         |                                                    |           | Jk, Century, Satia                 |                                                       |
| 3.                       | Photo Copy Paper (Fs), 75 GSM (500 sheets)                                |                                                    |           | Jk, Century, Satia                 |                                                       |
| 4.                       | Photo Copy Paper Colour(Fs), 75 GSM (500 sheets)                          |                                                    |           | Jk, Century, Satia                 |                                                       |
| 5.                       | Photo Copy Paper (A3) 75 GSM (500 sheets)                                 |                                                    |           | Jk, Century, Satia                 |                                                       |
| 6.                       | Pokar /borer with steel handle                                            |                                                    |           | Superior Quality                   |                                                       |
| 7.                       | A4 size envelope laminated                                                |                                                    |           | Superior Quality                   |                                                       |
| 8.                       | A4-Plastic Folder Single side Transprent with board name and logo printed |                                                    |           | Superior Quality                   |                                                       |
| 9.                       | Adhesive slip pad (75mmx100mm)                                            |                                                    |           | Neelgagan/ S.fine अथवा इसके अनुरूप |                                                       |
| 10.                      | Quataz Golden Ring Plastic wall Clock No. 497                             |                                                    |           | Ajanta, Timex, Quartz              |                                                       |

|     |                                                      |  |  |                            |  |
|-----|------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|--|
|     |                                                      |  |  |                            |  |
| 11. | All pin pkt.                                         |  |  | Zen, Zebra                 |  |
| 12. | Mosquito Liquid Vapories Repeleant Machine           |  |  | Allout, Mortine Max        |  |
| 13. | Mosquito Liquid Vapories Repeleant Reffile (30 Days) |  |  | Allout, Mortine Max        |  |
| 14. | Allpin cusion (Magnetic)                             |  |  | Superior Quality           |  |
| 15. | Attendance Register big for Staff 100 page           |  |  | Sagar, Rastogi, Vishal     |  |
| 16. | Bag For Laptop                                       |  |  | HP, Dell, American Tourist |  |
| 17. | pen MRP 10/-                                         |  |  | Flair, Montex, Cello       |  |
| 18. | pen MRP 20/-                                         |  |  | Flair, Montex, Cello       |  |
| 19. | pen Mrp. 5/-                                         |  |  | Flair, Montex, Cello       |  |
| 20. | Bill Register 240pg.                                 |  |  | Sagar, Rastogi, Ashoka     |  |
| 21. | BINDER CLIP 19 MM                                    |  |  | Realone, Infinity, Saya    |  |
| 22. | Binder Clip 25mm                                     |  |  | Realone, Infinity, Saya    |  |
| 23. | Binder Clip 41mm                                     |  |  | Realone, Infinity, Saya    |  |
| 24. | Calculater 12digits (Casio MJ 120)                   |  |  | Casio, Citzen, Orpat,      |  |
| 25. | CASH CHALLAN REGISTER                                |  |  | Rastogi, Sagar, Vishal     |  |
| 26. | Cashbook Big (Govt.) 200pg.                          |  |  | Sagar, Rastogi, Vishal     |  |
| 27. | Cashbook Small (Govt.) 200pg                         |  |  | Sagar, Rastogi, Vishal     |  |
| 28. | CD Marker Pen                                        |  |  | Luxer, Camlin, artline     |  |

|     |                                             |  |  |                                   |  |
|-----|---------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 29. | Cell for Calculater 12digits                |  |  | Casio, Orpat,<br>Citizen          |  |
| 30. | Cell for Remote Bell (GP ULTRA) 23AE<br>12V |  |  | Superior<br>Quality               |  |
| 31. | White/Brown Tape 1"                         |  |  | Wonder, Cello,<br>Scotch          |  |
| 32. | White/Brown half inch                       |  |  | Wonder, Cello,<br>Scotch          |  |
| 33. | White/Brown Tape 2"                         |  |  | Wonder, Cello,<br>Scotch          |  |
| 34. | CHALLAN REGISTER                            |  |  | Rastogi, Sagar,<br>Vishal         |  |
| 35. | Clip Board Transparent                      |  |  | Superior<br>Quality               |  |
| 36. | Clock Cell                                  |  |  | Novino,<br>Panasonic,<br>Eveready |  |
| 37. | Glass and Surface Cleaner 200 ML            |  |  | Collin,<br>Hygienzz, IHP          |  |
| 38. | Confrence Pad 40page                        |  |  | Neelgagan, अथवा<br>इसके अनुरूप    |  |
| 39. | Consumable Stock Register 320 page          |  |  | Rastogi, Sagar                    |  |
| 40. | Correcting whitener Pen                     |  |  | Kores, Kaya,<br>Camlin            |  |
| 41. | Cutter big 18mm blade                       |  |  | TRIO, Natraj,<br>Max              |  |
| 42. | D.D. REGISTER                               |  |  | Superior<br>Quality               |  |
| 43. | Dak Pad                                     |  |  | Superior<br>Quality               |  |
| 44. | Hand Wash Liquid 200ml.                     |  |  | Dettol, Lifebuoy,<br>Savlon       |  |
| 45. | Hand wash Soap (Small)                      |  |  | Dettol, Lifebuoy,<br>Savlon       |  |
| 46. | Dr. Pad Slip                                |  |  | Superior<br>Quality               |  |

|     |                                                              |  |  |                             |  |
|-----|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| 47. | Electrical Ext. Board with five metre Cable (Six pin Socket) |  |  | Klick, Anchor, Ibell        |  |
| 48. | Electrical kettle 1 litre                                    |  |  | Usha, Havells, Prestige     |  |
| 49. | ENCASHMENT REGISTER                                          |  |  | Rastogi, Sagar, Vishal      |  |
| 50. | Envelope 11x5 with Matter printed                            |  |  | Superior Quality            |  |
| 51. | Envelope 9x4 with matter Printed                             |  |  | Superior Quality            |  |
| 52. | Envelope size 12x6                                           |  |  | Superior Quality            |  |
| 53. | Envelope size 9x4                                            |  |  | Superior Quality            |  |
| 54. | Eraser                                                       |  |  | Apsara, Doms, Natarqj       |  |
| 55. | Fevicol Tube 50gm                                            |  |  | Euro, Fevicol, MR           |  |
| 56. | Feviquick MRP-5/-                                            |  |  | Pedilite, Feviquick, Kores, |  |
| 57. | Fevistick 15gm                                               |  |  | Kores, Pedilite, Feviquick, |  |
| 58. | File Cover soft laminated with printed board name and logo   |  |  | Superior Quality            |  |
| 59. | File lace (per Bundle 100 lace) 924 No.Green                 |  |  | Superior Quality            |  |
| 60. | File Pad file size ( 32 onus)                                |  |  | Superior Quality            |  |
| 61. | File Size Envelope laminated                                 |  |  | Superior Quality            |  |
| 62. | File size Envelope(12x16)                                    |  |  | Superior Quality            |  |
| 63. | File Tag (per bundle 100 Tag)                                |  |  | Superior Quality            |  |
| 64. | Flag pad 3x3                                                 |  |  | Superior Quality            |  |

|     |                                  |  |  |                            |  |
|-----|----------------------------------|--|--|----------------------------|--|
| 65. | Foot mate (joot size 4'x2')      |  |  | Superior Quality           |  |
| 66. | Full plate 110 R.C.              |  |  | Superior Quality           |  |
| 67. | Gum bottle 150ml                 |  |  | Camel अथवा इसके अनुरूप     |  |
| 68. | HARD BOARD LONG REGISTER         |  |  | Superior Quality           |  |
| 69. | Highlighter All Color            |  |  | Luxer, Camlin, Cello       |  |
| 70. | HIT (Black) 320ml.               |  |  | HIT, Mortin, Godrej        |  |
| 71. | index file normal No. L-549      |  |  | Superior Quality           |  |
| 72. | Index File plastic No. L-549     |  |  | Superior Quality           |  |
| 73. | LEATHER BAG OFFICER              |  |  | Superior Quality           |  |
| 74. | Legal Diary                      |  |  | Superior Quality           |  |
| 75. | Letter Despatch Register 240pg.  |  |  | Sagar, Rastogi, Vishal     |  |
| 76. | Letter Receipt Register 240 page |  |  | Sagar, Rastogi, Vishal     |  |
| 77. | Paper cutter (Medium)            |  |  | TRIO, Natraj, Max          |  |
| 78. | Name plate(12"x4")               |  |  | Superior Quality           |  |
| 79. | Nepkin Towel                     |  |  | Superior Quality           |  |
| 80. | Note Pad No.-08, 80pg.           |  |  | Neelgagan अथवा इसके अनुरूप |  |
| 81. | Official Dairy                   |  |  | Superior Quality           |  |
| 82. | Packthread (hemp) (सूतली)        |  |  | Superior Quality           |  |
| 83. | Paper Stand                      |  |  | Boss, Barelove,            |  |

|      |                                                                                   |  |  |                           |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|--|
|      |                                                                                   |  |  | Acrylic                   |  |
| 84.  | Paper weight Plastic (Acrylic)                                                    |  |  | Dolphin, Kebica, Crazygol |  |
| 85.  | Pen stand (Tumbler)                                                               |  |  | LRS, Oddy, KBI            |  |
| 86.  | Pen stand, Big with Holder pen                                                    |  |  | Superior Quality          |  |
| 87.  | Pencil                                                                            |  |  | Apsara, Natraj, Doms      |  |
| 88.  | Peon Dairy 240 page                                                               |  |  | Rastogi, Sagar, Rainbow   |  |
| 89.  | Permanant Stock Register 320page                                                  |  |  | Rastogi, Sagar, Vishal    |  |
| 90.  | Permanent Marker Bold                                                             |  |  | Camlin, Luxar, Artline    |  |
| 91.  | PERMANENT PAINT MARKER                                                            |  |  | Camlin, Doms, Luxar       |  |
| 92.  | Pilot Pen v5 shine                                                                |  |  | Pilot                     |  |
| 93.  | Pilot Pen v5 shine (REFILL/ CARTRIDGE)                                            |  |  | Pilot                     |  |
| 94.  | Pilot Pen v7 shine                                                                |  |  | Pilot                     |  |
| 95.  | Pilot Pen v7 shine (REFILL/ CARTRIDGE)                                            |  |  | Pilot                     |  |
| 96.  | Plastic Bucket 20litre                                                            |  |  | Cello Milton              |  |
| 97.  | Plastic Button Folder                                                             |  |  | Superior Quality          |  |
| 98.  | Plastic desktop dusbin (big) 50 litre                                             |  |  | Cello Neelkamal Kuber     |  |
| 99.  | Plastic desktop dustbin (Medium)                                                  |  |  | Cello Neelkamal Kuber     |  |
| 100. | Plastic Folder Double side Transparent with board Name and Logo Printed (FS Size) |  |  | Infinity. Solo, Generic   |  |
| 101. | Plastic ID Card Cover with Strip                                                  |  |  | Superior Quality          |  |
| 102. | Plastic Scale (30CM) 12"                                                          |  |  | Camlin Apsara, Doms       |  |

|      |                                            |  |  |                             |  |
|------|--------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| 103. | Plastic Self Adhesive Hooks                |  |  | Anchor/S.fine               |  |
| 104. | Plastic Water Bottel (1 Ltr.)              |  |  | Cello, Milton,<br>2 Mech    |  |
| 105. | poker big with steal handle                |  |  | Superior<br>Quality         |  |
| 106. | Posts Stamp Register                       |  |  | Superior<br>Quality         |  |
| 107. | punching machin No. 800                    |  |  | Kangaro                     |  |
| 108. | Punching Machine No 600                    |  |  | Kangaro                     |  |
| 109. | Punching Machine No. 52                    |  |  | Kangaro                     |  |
| 110. | Punching Machine Single                    |  |  | Kangaro                     |  |
| 111. | PVC ID Card (8.5cm X 5.5cm)                |  |  | Superior<br>Quality         |  |
| 112. | Quater plate                               |  |  | Superior<br>Quality         |  |
| 113. | Register (Lined) 120 page, Hard Board      |  |  | Classic, Vishal,<br>Rastogi |  |
| 114. | Register (Lined) 180page, Hard Board       |  |  | Classic, Vishal,<br>Rastogi |  |
| 115. | Register (Lined) 240 page, Hard Board      |  |  | Classic, Vishal,<br>Rastogi |  |
| 116. | Remote Bell                                |  |  | Anchor, Baoji,<br>Ronfild   |  |
| 117. | Reynold Trimax Gold pen                    |  |  | Reynold                     |  |
| 118. | REYNOLDS JETTER PEN                        |  |  | Reynold                     |  |
| 119. | Room Freshner (125gm)                      |  |  | Godrej Odonil,<br>Aer       |  |
| 120. | ROUND STAMP SEAL                           |  |  | Superior<br>Quality         |  |
| 121. | Rubber Band (Per pkt- 400gm) Big<br>Size   |  |  | Superior<br>Quality         |  |
| 122. | Rubber Bañd (Per pkt- 400gm) Small<br>Size |  |  | Cubic, Flexi                |  |
| 123. | Rubber Stamp seal (Per line)               |  |  | Superior<br>Quality         |  |

|      |                                              |  |  |                              |  |
|------|----------------------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| 124. | Scissor 8"                                   |  |  | Gem, Scotch,<br>Alvi         |  |
| 125. | Self inked Seal (Per line)                   |  |  | Superior<br>Quality          |  |
| 126. | Service Tray (Medium)                        |  |  | Superior<br>Quality          |  |
| 127. | Sharpner                                     |  |  | Apsara, Doms,<br>Nataraj     |  |
| 128. | Shorthand pencil                             |  |  | Apsara, Doms,<br>Nataraj     |  |
| 129. | Slip pad 9"x 6" (80 page)                    |  |  | Neelgagan, Kea<br>Saya, Solo |  |
| 130. | Spiral pad No. 66 40page                     |  |  | Neelgagan, Kea<br>Saya, Solo |  |
| 131. | Spiral Pad No. 67, 100 Page                  |  |  | Neelgagan, Kea<br>Saya, Solo |  |
| 132. | Stamp Pad Faber Castell 88*54mm              |  |  | Camlin, Ashoka               |  |
| 133. | Stamp Pad ink 100ml 100Mk                    |  |  | Camlin, Ashoka               |  |
| 134. | Stapler Pin No. 10                           |  |  | Kangaroo, Kores              |  |
| 135. | Stepler No. 10                               |  |  | Kangaroo, Kores              |  |
| 136. | Stepler No. 24x6                             |  |  | Kangaroo, Kores              |  |
| 137. | Stepler Pin No. 24x6                         |  |  | Kangaroo, Kores              |  |
| 138. | Table glass Superior (per Feet Sq)           |  |  | Superior<br>Quality          |  |
| 139. | TABLE TOP                                    |  |  | Superior and<br>Good Quality |  |
| 140. | Tea Coaster                                  |  |  | Superior<br>Quality          |  |
| 141. | Tea Cup set with socior (per set 6<br>piece) |  |  | Superior<br>Quality          |  |
| 142. | Thurmos flask (1 Ltr./ 0.5 Ltr.)             |  |  | Milton, Cello,               |  |
| 143. | TISSUE PAPER NORMAL                          |  |  | Superior<br>Quality          |  |
| 144. | TISSUE PAPER WET                             |  |  | Superior<br>Quality          |  |

|                                  |                                                      |  |  |                            |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|--|
| 145.                             | Total Security Antivirus (3 years warranty +03 User) |  |  | Quick Heal, McAfree, NPAV  |  |
| 146.                             | Towel for Officer chair                              |  |  | Superior Quality           |  |
| 147.                             | Treasury Transit Register 240pg.                     |  |  | Sagar, Rastogi, Ashoka     |  |
| 148.                             | UNIBALL GEL IMPACT PEN                               |  |  | UNIBALL                    |  |
| 149.                             | UNIBALL GEL IMPACT PEN REFILL                        |  |  | UNIBALL                    |  |
| 150.                             | Uniball i-micro pen all color                        |  |  | Uniball                    |  |
| 151.                             | U-Pin pkt. (Plastic Coated)                          |  |  | Zen, AMCEE                 |  |
| 152.                             | USB 3.0 A to B Printer Cable (1.5 meter) in Copper   |  |  | Technxt, S.fine            |  |
| 153.                             | V SINO PEN                                           |  |  | V SINO PEN                 |  |
| 154.                             | Vim bar Small                                        |  |  | Vim bar, Jhalak, Ghadi     |  |
| 155.                             | Washing Powder 100 gm pouch                          |  |  | Rin, Jhalak, Wheel         |  |
| 156.                             | Water Glass for staff (Rs.20)                        |  |  | Superior Quality           |  |
| 157.                             | Water Glass set (Per Set 6 piece) for officers       |  |  | Borosil, Vision, Ocean San |  |
| 158.                             | Water jug (2 litre)                                  |  |  | Superior Quality           |  |
| 159.                             | Water Pad                                            |  |  | Superior Quality           |  |
| 160.                             | WHITE BOARD                                          |  |  | Superior Quality           |  |
| 161.                             | WHITE BOARD DUSTER                                   |  |  | Superior Quality           |  |
| 162.                             | WHITE BOARD MARKER 80 GSM Paper<br>Hard Bind Cover   |  |  | Superior Quality           |  |
| 163.                             | Duster Cloth 24X24                                   |  |  | Superior Quality           |  |
| <b>Computer Stationery Items</b> |                                                      |  |  |                            |  |
| 164.                             | Computer Mouse                                       |  |  | HP, Dell, TVS              |  |

|      |                                 |  |  |                                          |  |
|------|---------------------------------|--|--|------------------------------------------|--|
| 165. | Computer Mouse Wireless         |  |  | HP, Dell, TVS                            |  |
| 166. | CD Case Box Transparent         |  |  | Sony, HP, Writex                         |  |
| 167. | HP AC power Adapter for Laptop  |  |  | HP                                       |  |
| 168. | HP AC power Adapter for Scanner |  |  | HP                                       |  |
| 169. | CD-R, 700MB-100pc               |  |  | Sony, HP, Writex                         |  |
| 170. | CD-RW, 700MB-100pc              |  |  | Sony, HP, Writex                         |  |
| 171. | Pen Drive 128GB                 |  |  | Kingston/<br>Kingston, Sony,<br>San Disk |  |
| 172. | Pen Drive 16GB                  |  |  | Kingston,<br>Kingston, Sony,<br>San Disk |  |
| 173. | Pen Drive 32GB                  |  |  | Kingston,<br>Kingston, Sony,<br>San Disk |  |
| 174. | Pen Drive 64GB                  |  |  | Kingston,<br>Kingston, Sony,<br>San Disk |  |
| 175. | Pen Drive 8GB                   |  |  | Kingston,<br>Kingston, Sony,<br>San Disk |  |
| 176. | Hard disk 2 TB                  |  |  | WD , Toshiba,<br>Sata                    |  |
| 177. | HARD DISK 4 TB                  |  |  | WD , Toshiba,<br>Sata                    |  |
| 178. | DVD-R, 4.7GB-100 pc             |  |  | Sony, HP, Writex                         |  |
| 179. | DVD-RW, 4.7GB-100 pc            |  |  | Sony, HP, Writex                         |  |
| 180. | Key Board                       |  |  | HP, Dell, TVS                            |  |
| 181. | Key Board Wirless               |  |  | HP, Dell, TVS                            |  |
| 182. | Ricoh SP310dn Carriage          |  |  | Ricoh                                    |  |
| 183. | Hard Disk Case                  |  |  | WD , Toshiba,<br>Sata                    |  |

नोट:-

- निविदा में जिस सामग्री का ब्रॉण्ड एवं मॉडल दिया गया है, की ही दरें प्रस्तुत करनी होंगी। इसके अतिरिक्त में मॉडल/ब्राण्ड का नाम अंकित करते हुए नमूने पेश करने होंगे।

- बोर्ड समिति के मांगने पर निविदा में अंकित ब्रॉण्ड एवं मॉडल वाली सामग्री के नमूने भी प्रस्तुत करने होंगे।
- जिस सामग्री का नमूना स्वयं निविदादाता द्वारा अंकित किया गया है, उसका नमूना आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- सामग्री की दरों/मॉडल/ब्रॉण्ड के नाम में **Over writing** नहीं करें।
- दरें/मॉडल/ब्रॉण्ड के नाम स्पष्ट/पठनीय शब्दों में प्रस्तुत करने का श्रम करें।
- यदि किसी सामग्री की अनुमोदित दर नहीं है तो उसका भुगतान न्यूनतम बाजार दर पर किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता  
मय सील

Document certified by ABHA BENIWAL  
<ABHABENIWAL2017@GMAIL.COM>

Digitally Signed by Abha Beniwal  
Designation: Officer On Special  
Duty  
Date :18-06-2025 04:23:17